

E-mail: kvchilkappl@gmail.com

केन्द्रीयविद्यालय

भा. नौ. पो. चिल्का

खुर्धा

ओड़िशा - 752037

दूरभाष: 06756-257203

फैक्स: 06756-257203

Ref.No. F.150331(1)/1/KVC/1161/2021-22

Website: <http://inschilka.kvs.ac.in/>

KENDRIYA VIDYALAYA

INS CHILKA

CHILKA (KHORDHA)

Odisha-752037

Ph.no.:06756-257203(O&R)

Fax: 06756-257203

Dated:08/07/2021



Second Notification for Offline Registration for Admission in Class-I(Only for ST Candidates)


Applications are invited to fill 01 vacant seats reserved for ST Candidates in Class-I in K V INS Chilka. Registration form along with all required documents may be downloaded from the Vidyalaya Website (<https://inschilka.kvs.ac.in>). The duly filled in applications with all documents are to be deposited in the Office in between 09/07/2021 and 15/07/2021. No other modes of communication shall be entertained.

The application form so received shall be processed by the Vidyalaya as per KVS Admission Guidelines 2021-22 and provisional selected / waiting list of candidates will be uploaded in the Vidyalaya website as per schedule. Documents as required at the time of admission will be produced by the parents on the given date and time.


All candidates are instructed to come with valid ID Proof for entry at the Main Gate INS Chilka and follow Covid guidelines including wearing Mask and social distancing.

Documents required:

1. **Birth Certificate** :- Issued by the Competent Authority
2. **Caste Certificate**: (Caste certificate must be in the name of the candidate, the caste certificate in the name of the parent may be considered, but it has to be submitted in the name of the child within 3 months of admission)
3. **Residence proof** :- House agreement with electricity bill of the owner /Voter Id. / LPG connection / Telephone Bill/Residential Certificate (any two)
4. **Service Certificate**: - In case of service person, Service Certificate and transfer details should be submitted in the format uploaded in the KVS website / given in the online portal for admission duly signed by the DDO.
5. **Transfer Certificate** indicating details of transfer of parents in last 07 years
6. **Aaadhar Card**
7. Any other documents as required under Admission Guidelines in support of any claims made. Please visit KVS website (<https://kvsangathan.nic.in/>) for further details and contact Help Desk for further queries.



Admn I/C.


Principal
केन्द्रीय विद्यालय / Kendriya Vidyalaya
भा.नौ.पो. चिल्का (ओड़िशा) / INS CHILKA
PIN-752037 (Odisha)



केन्द्रीय विद्यालय _____, सभाग _____

Kendriya Vidyalaya _____, Region _____

पंजीकरण पत्र/Registration Form

Paste latest
Photograph of
ChildClass : Reg. No. :

1. विद्यार्थी का पूरा नाम (स्पष्ट शब्दों में)

Name of the Child in full (in Capital letters):

लिंग / Sex : पुरुष / Male स्त्री / Female तृतीय लिंग / Third Gender

2. जन्म तिथि (अंकों में) / Date of Birth (in figure) : दिन / Day मास / Month वर्ष / Year

शब्दों में / In words :

3. 31.03.2021 तक आयु/ Age as on 31.03.2021 वर्ष / Year मास / Month दिन / Day

4. बच्चे का रक्त समूह (Rh फैक्टर सहित) / Blood Group of the Child (With Rh Factor) :

5. बच्चे की सम्बंधित श्रेणी General SC ST OBC-CL OBC-NCL EWS BPL Diff. Abled SG Child (Attach Certificate*)

Category to which child belong:

6. आधार कार्ड नंबर/Aadhar Card Number:.....

7. माता पिता का विवरण/Details of Mother & Father:

क्र.सं. S.No.	माता/Mother	पिता / Father
(i)	नाम (स्पष्ट शब्दों में)/ Name (In Capital Letter)	
(ii)	राष्ट्रीयता (Nationality)	
(iii)	व्यवसाय (Occupation)	
(iv)	कार्यालय का नाम, पूरा पता व दूरभाष / Name of the Office, Full Address & Telephone Number.	
(v)	पूर्ण आवासीय पता व दूरभाष (प्रमाण सहित)/ Full Residential Address & Telephone No. (With Proof)	
(vi)	विद्यालय से दूरी (कि.मी. में)/Distance from KV in KM.	
(vii)	मूल वेतन / Basic Pay	
(viii)	पिछले 7 वर्षों में स्थानान्तरण की संख्या/ No of Transfers in last 7 years (As on 31/03/2020)	
(ix)	माता-पिता की सेवा श्रेणी/ Service Category of Parent	
(x)	कर्मचारी कोड (यदि है तो) / Emp. Code (If Any)	
(xi)	E-Mail Id:	

- I certify that the above entries are true to the best of my knowledge.

दिनांक/Date:

अभिभावक के हस्ताक्षर/Signature of Guardian

सेवा प्रमाणपत्र / Service Certificate

(केन्द्रीय सरकार / Central Govt.)

प्रमाणित है कि श्री / श्रीमती कार्यालय / मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। वे रक्षा सेवा / केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल / सीमा सुरक्षा बल / एन.एस.जी. / एस.पी.जी / सी.आई.एस.एफ. / केन्द्रीय सरकार स्वायत्त संस्था अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जो पूर्ण या आंशिक रूप से केंद्र सरकार से वित्त-पोषित हैं , के नियमित कर्मचारी हैं तथा उनकी सेवा अस्थानांतरणीय है / पूर्ण भारत में कहीं भी स्थानांतरणीय है।

Certified that Shri/Smt. is working as regular employee in the Office / Ministry of He/She is an employee of Defence Service / CRPF / BSF / NSG / SPG / CISF / Central Govt. / Autonomous Body / Public Sector Undertaking fully financed / partially finance by the Central Govt. and his / her services are non-transferable / transferable anywhere in India.

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)
Signature of head of the Office
(With Name, Designation and Office Stamp)

स्थान/Place.....

दिनांक/Date.....

कार्यालय का पूर्ण पता और दूरभाष संख्या/ Complete address and Telephone No. of office

.....

Service Certificate

(राज्य सरकार / State Govt.)

प्रमाणित है कि श्री / श्रीमती कार्यालय / मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं तथा उनकी सेवा अस्थानांतरणीय है / पूर्ण राज्य में कहीं भी स्थानांतरणीय है।

Certified that Shri/Smt. is working in the Office / Ministry of and his / her services are non-transferable / transferable anywhere in State.

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)
Signature of head of the Office
(With Name, Designation and Office Stamp)

स्थान/Place.....

दिनांक/Date.....

कार्यालय का पूर्ण पता और दूरभाष संख्या/ Complete address and Telephone No. of office

.....

स्थानांतरण संख्या प्रमाण पत्र / CERTIFICATE OF NUMBER OF TRANSFERS

मैं, नाम (रैंक / पदनाम) (कार्यालय), एतद द्वारा प्रमाणित करता / करती हूँ पिछले सात साल(31/3/2021) में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेरे (अंकों व शब्दों में) स्थानांतरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया है ।

I,.....(Name).....(rank/designation) of (office), do hereby certify that during the past 7 years (up to 31.03.2021) I have been transferred Times (in figures & in words) from one station to another, the details of which are given as under:-

स्थान से / Office /Unit and Place	अवधि दिनांक से / Date of joining the Office/Unit	अवधि दिनांक तक / Date of release from the Office/Unit	ठहरने की अवधि / Period of Stay (in months)	स्थान तक / Transferred Office / Unit and Place	दूरी (किमी)/ Distance between the two Office (in km)	स्थानांतरण आदेश संख्या / Transfer Order No.

मैं जनता /जानती हूँ कि यदि उपरोक्त तथ्य गलत पाए गए तो मेरा बच्चा केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए अयोग्य हो जायेगा।

I know that if the above mentioned facts are found incorrect, my child will be disqualified for admission in Kendriya Vidyalaya.

स्थान/ Place
दिनांक/ Date

माता /पिता के हस्ताक्षर
Signature of Parent

प्रतिहस्ताक्षर / Countersignature

में, नाम (रैंक / पदनाम) (कार्यालय), एतद द्वारा प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त विषय विवरण को कार्यालय-आलेखों से जांच लिया गया है व सही पाया गया है।

I, (Name).....(rank/designation) of (unit/ department) hereby certify that the particulars given in above have been authenticated by the records held in the office and found correct.

स्थान/ Place

दिनांक/ Date

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)
Signature of Competent Authority
(with Name, Designation and Office Stamp)

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या

Complete Address and Telephone No. of Office

टिप्पणी / Note :

एक स्थान पर ठहरने की अवधि कम से कम छह मास होनी चाहिए।

1. Minimum period of posting / stay at a place should be minimum six months.

ANNEXURE – I
Self-Declaration Format

I _____, Father/Mother of Master/Miss _____

age _____ years, resident of _____ (complete address),

do hereby declare that the information given admission form of the admission in Kendriya Vidyalaya,

_____ and in the enclosed documents is true to the best of my knowledge and belief and nothing

has been concealed therein. I am well aware of the fact that if the information given by me is proved false / not

true at any point of time, admission has be dimmed cancelled and will liable to punishment as per guidelines

of KVS and the benefit accrued by me or my ward shall be summarily cancelled.

Date:-

Place:-

Signature of the Parent/Guardian